



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 300

K.M. 05

C.B. 295

पूरा किया

सं. 4]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 13, 2003/माघ 24, 1924

No. 4]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2003/MAGHA 24, 1924

प्रभासे

रा० वि० एकक

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(भूमि तथा विकास कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2003

सं. प्रशा. 14(21)/2/2001.—लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री विजय तेहलान सतर्कता-सह-विधि अधिकारी को भूमि तथा विकास कार्यालय में सम्पदा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है। श्री विजय तेहलान भूमि तथा विकास कार्यालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में आने वाले लोक परिसरों बाबत उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

पी. के. प्रधान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND
POVERTY ALLEVIATION

(Land and Development Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2003

No. Adm. 14(21)/2/2001.—In pursuance of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, the Central Government hereby appoints Shri Vijay Tehlan, Vigilance-Cum-Legal Officer, to act as Estate Officer in the Land and Development Office with immediate effect. Shri Vijay Tehlan shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act in respect of the public premises under the administrative control of Land and Development Office stipulated within the local limits of his jurisdiction.

P. K. PRADHAN, Jt. Secy.